

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7
संख्या:360 / xxvii(7) / 2009
देहरादून, दिनांक: 14 दिसम्बर, 2009


कार्यालय ज्ञाप

विषय:—महिला सरकारी सेवकों को प्रसूति अवकाश के विषय में स्पष्टीकरण।

कार्यालय ज्ञाप संख्या:250 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 24 अगस्त, 2009 के द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन अवकाश तत्कालिक प्रभाव से स्वीकृत किया गया था।

2— विभिन्न विभागों/श्रोतों से यह जिज्ञासायें की जा रही हैं कि जो सरकारी महिला कर्मचारी उपरिलिखित कार्यालय ज्ञाप दि० 24 अगस्त 2009 के निर्गत होने की तिथि को पूर्व व्यवस्थान्तर्गत प्रसूति अवकाश में चल रही हैं उनके विषय में अब परिवर्तित व्यवस्था के बाद किस व्यवस्थान्तर्गत अवकाश अनुमन्य होगा। अतः इस संबंध में अद्योहरस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी महिला कर्मिक की अवकाश की अवधि दि० 24 अगस्त, 2009 या इसके पश्चात् पूरी हो गयी और सरकारी सेवक के द्वारा अवकाश के उपयोग के बाद कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है ऐसे प्रकरणों को पुर्नउद्घाटित नहीं किया जायेगा और उन्हें पूर्व व्यवस्थान्तर्गत ही अवकाश अनुमन्य होगा, लेकिन यदि महिला कर्मिक उक्त आदेश निर्गत करने की तिथि को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने की तिथि को अवकाश पर चल रही हो और उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण न किया गया हो, तब उसे 135 दिन के स्थान पर 180 दिन का उक्त कार्यालय ज्ञाप दि० 24 अगस्त 2009 की व्यवस्था के अनुसार प्रसूति अवकाश अनुमन्य होगा।


3— कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 अगस्त, 2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या: (1) / XXVII(7) / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेंट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- ✓ 10. निदेशक, एन० आई० सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शरद चन्द पाण्डे)
अपर सचिव।